

# प्रेस नोट (थाना चौक, कमिश्नरेट वाराणसी)

## चोरी की दो अदद मोबाइल के साथ शातिर चोर गिरफ्तार

1. सम्बन्धित थाने का नाम- थाना चौक, कमिश्नरेट वाराणसी
2. मु0अ0सं0- 0060/2021 धारा 41,411 IPC
3. घटना दिनांक- 18.07.2021 समय 19.50 बजे
4. सूचना दिनांक- 18.07.2021 समय 21.41 बजे
5. घटना स्थल का विधिवत विवरण- दत्तात्रेय मन्दिर, सिन्धिया घाट के पास, थाना चौक, वाराणसी
6. सूचनाकर्ता/वादी का नाम व पता- श्री उ0नि0 प्रकाश सिंह थाना चौक, कमिश्नरेट – वाराणसी
7. गिरफ्तार अभियुक्त- 1. गुफरान पुत्र अब्दुल मतीन निवासी A 39/305 लाट सरैया तकिया, थाना जैतपुरा, कमिश्नरेट वाराणसी उम्र 20 वर्ष
8. गिरफ्तारी का दिनांक व समय: 18.07.2021 समय 19.50 बजे
9. गिरफ्तारी स्थल- दत्तात्रेय मन्दिर, सिन्धिया घाट के पास, थाना चौक, वाराणसी ।
10. माल बरामदगी का विवरण – OPPO A3S व REDMI NOTE 9 ( दो अदद एण्ड्राइड फोन)
11. गिरफ्तारी टीम- 1. उ0नि0 प्रकाश सिंह चौकी प्रभारी ब्रह्मनाल व उ0नि0 सुनील कुमार गुप्ता, का0 रोहित जैसवार, का0 इन्द्रेश दूबे थाना चौक, जनपद वाराणसी
12. घटना का विवरण- श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय वाराणसी द्वारा अपराधों की रोकथाम हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में पुलिस उपायुक्त काशी जोन महोदय के निर्देशन में व अपर पुलिस उपायुक्त काशी जोन महोदय तथा सहायक पुलिस आयुक्त दशाश्वमेध महोदय व डा0 आशुतोष कुमार तिवारी प्रभारी निरीक्षक थाना चौक के निकट पर्यवेक्षण में थाना चौक पुलिस जुर्म जरायम रोकथाम व शान्ति व्यवस्था ड्यूटी में लगी हुई थी कि चौकी प्रभारी ब्रह्मनाल उ0नि0 प्रकाश सिंह व उ0नि0 सुनील कुमार गुप्ता, का0 रोहित जैसवार, का0 इन्द्रेश दूबे थाना चौक, जनपद वाराणसी के ठठेरी बाजार में भ्रमण शील थे कि जरिए मुखबिर खास सूचना मिली कि एक शातिर को गणेश घाट से सिन्धिया घाट की तरफ आने वाला है जिसके पास चोरी की कुछ मोबाइल है जल्दी किया जाए तो पकड़ा जा सकता है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर उपरोक्त पुलिस टीम वहाँ पहुँची व मुखबिर ने इशारा करके बताया की साहब सिन्धियाघाट की तरफ आने वाला लड़का ही शातिर चोर है व हटबढ़ गया। इस सूचना पर विश्वास करके उपरोक्त पुलिस टीम आगे बढ़े की पुलिस को अपनी तरफ आते देख कर शातिर चोर भागने का प्रयास किया कि एक बारगी दविस देकर पकड़ लिया गया। पकड़े गए व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम गुफरान पुत्र अब्दुल मतीन निवासी A 39/305 लाट सरैया तकिया, थाना जैतपुरा, कमिश्नरेट वाराणसी उम्र 20 वर्ष बताया तथा उसकी जामा तलाशी से 02 अदद चोरी के एण्ड्राइड फोन बरामद हुआ। शातिर व्यक्ति को अपराध का बोध कराते हुए समय 19.50 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

13. गिरफ्तार अभियुक्त की फोटो एवं बरामद माल



15. अभियुक्त का आपराधिक इतिहास पता किया जा रहा है।

प्रभारी निरीक्षक  
थाना चौक  
कमिश्नरेट वाराणसी